



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, मई 19—मई 25, 2019, शनिवार/वैशाख 29—ज्येष्ठ 4, 1941

No. 15] NEW DELHI, MAY 19—MAY 25, 2019, SATURDAY/ VAISAKHA 29—JYAISTHA 4, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 मई, 2019

का.नि.आ. 47.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौसेना समूह 'ख' और 'ग' स्टाफ पुस्तकालय और सिनेमा स्टाफ पद भर्ती नियम 2001, जहां तक ज्येष्ठ सिनेमा प्रक्षेपक, सिनेमा प्रक्षेपक श्रेणी-I, सिनेमा प्रक्षेपक श्रेणी-II के पदों से संबंधित है उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें अधिक्रमण किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) एकीकृत मुख्यालय में ज्येष्ठ सिनेमा प्रक्षेपक, सिनेमा प्रक्षेपक श्रेणी-I, सिनेमा प्रक्षेपक श्रेणी-II, के समूह 'ग' सिनेमा स्टाफ के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), सिनेमा स्टाफ, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना.-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि.-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त / पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.-** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. ज्येष्ठ सिनेमा प्रक्षेपक	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -5 (29200-92300 रु.)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आवश्यक: मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं उत्तीर्ण की हो जो कि फिल्मों के फिल्म पुस्तकालय या लेखांकन में दो वर्ष अनुभव प्राप्त किया हो ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) में ऐसा सिनेमा प्रक्षेपक श्रेणी-1 में जिसने श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब तक जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि / प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) कमांडर या संबंधित कमान / नौ सेना मुख्यालय का समतुल्य पंक्ति का सिविलियन अधिकारी या ऊपर की पंक्ति का अधिकारी - अध्यक्ष (2) संबंधित कमान मुख्यालय या नौसेना मुख्यालय में लेफ्टीनेंट कमांडर/ लेफ्टीनेंट या ऊपर के समतुल्य सिविलियन अधिकारी की पंक्ति के या समतुल्य पंक्ति के दो अधिकारी, एक विभागीय और एक विभाग से असंबद्ध हो - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सिनेमा प्रक्षेपक श्रेणी-1	10* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -4 (25500-81000 रु.)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए

					<p>नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>1. मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य</p> <p>2. अपने अपने राज्य सरकार या नगर निगम आदि द्वारा विहित सिनेमा ऑपरेटर की अनुज्ञर्पित अवश्य होनी चाहिए।</p> <p>3. इस क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव।</p>	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रु.) में ऐसा सिनेमा प्रक्षेपक ने श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब तक जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) कमांडर या संबंधित कमान / नौसेना मुख्यालय का समतुल्य पंक्ति का सिविलियन अधिकारी या उपर की पंक्ति का अधिकारी -अध्यक्ष</p> <p>(2) संबंधित कमान मुख्यालय या नौसेना मुख्यालय में लेफ्टीनेंट या उपर के समतुल्य सिविलियन अधिकारी की पंक्ति के या समतुल्य पंक्ति के दो अधिकारी, एक विभागीय और एक विभाग से असंबद्ध हो - सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. सिनेमा प्रक्षेपक श्रेणी-II	05* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता	<p>18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के</p>	<p>आवश्यक:</p> <p>1. मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।</p> <p>2. अपने अपने राज्य सरकार या नगर</p>

					<p>लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>निगम आदि द्वारा विहित सिनेमा ऑपरेटर की अनुज्ञर्पित अवश्य होनी चाहिए।</p> <p>3. समुचित क्षेत्र या व्यवसाय में दो वर्ष अनुभव प्राप्त किया हो।</p>
--	--	--	--	--	---	--

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) कमांडर या संबंधित कमान / नौसेना मुख्यालय का समतुल्य पंक्ति का सिविलियन अधिकारी या उपर की पंक्ति का अधिकारी - अध्यक्ष</p> <p>(2) संबंधित कमान मुख्यालय या नौसेना मुख्यालय में लेफ्टीनेंट या उपर के समतुल्य सिविलियन अधिकारी की पंक्ति के या अन्य समतुल्य पंक्ति के दो अधिकारी, एक विभागीय और एक विभाग से असंबद्ध हो - सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

टिप्पण : मूल नियम भारत का राजपत्र भाग-II खंड-4, का.नि.आ. 193 दिनांक 6 सितंबर 2001 द्वारा प्रकाशित किए गये थे।

[फा. सं. सी पी (एन जी)/2821/सिनेमा स्टाफ/आर आर/52/19/र./[नि]]

विश्वजीत गुहा, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 14th May, 2019

S.R.O. 47.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Navy Group 'B' and 'C' Library Staff and Cinema Staff posts Recruitment Rules, 2001, in so far as it relates to the posts of Senior Cinema Projectionist, Cinema Projectionist Grade-I, Cinema Projectionist Grade-II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to Group 'C' (Cinema Staff) posts of Senior Cinema Projectionist, Cinema Projectionist Grade-I and Cinema Projectionist Grade-II, in the Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy), namely :-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy) Cinema Staff Group 'C' posts Recruitment Rules, 2019.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.-** The number of the posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.-** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Senior Cinema Projectionist	01* (2019) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Industrial	Level-5 (Rs. 29200-92300)	Non-Selection	Between 18 and 27 years (relaxable up to forty years in accordance with the instructions issued by the Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to

				submit the names.
Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by absorption or by promotion and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	
(7)	(8)	(9)	(10)	
Essential: 10+2 from a recognized Board or Institution with two years experience in Film Library or in accounting of the films.	Not applicable	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by direct recruitment.	

In case of recruitment by promotion or absorption, grades from which promotion/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Cinema Projectionist Grade-I in Level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with five years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: - 1. Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank or above of respective Command/ Naval Headquarters - Chairman 2. Two Officers of the rank of Lieutenant Commander/ Lieutenant or Civilian Officers of equivalent rank or above of respective Command Headquarters or Naval Headquarters, one departmental and one unconnected with the department - Members.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Cinema Projectionist Grade-I	10* (2019) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Industrial	Level-4 (Rs. 25500-81100)	Non-Selection	<p>Between 18 and 27 years (relaxable up to forty years in accordance with the instructions issued by the Government from time to time).</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.</p> <p>Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>1. Matriculation or equivalent from a recognized Board or Institution.</p> <p>2. Must be in possession of licence of Cinema Operator specified by respective State Government or Municipal Corporation etc.</p> <p>3. Five years' experience in the field.</p>	Not applicable	Two years for direct recruits.	By promotion, failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Cinema Projectionist in Level -2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix with eight years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of: -</p> <p>1. Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank or above of respective Command/Naval Headquarters - Chairman</p> <p>2. Two Officers of the rank of Lieutenant Commander/ Lieutenant or Civilian Officers of equivalent rank or above of respective Command Headquarters or Naval Headquarters, one departmental and one unconnected with the department - Members.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Cinema Projectionist Grade-II	05* (2019) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Industrial	Level -2 (Rs. 19900-63200)	Not applicable	Between 18 and 27 years (relaxable up to forty years in accordance with the instructions issued by the Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: 1. Matriculation or equivalent from a recognized Board or Institution. 2. Must be in possession of licence of Cinema Operator prescribed by respective State Government or Municipal Corporation etc. 3. Two years' experience in the appropriate field/ trade.	Not applicable	Two years.	By direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Officer of the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank or above of respective Command/Naval Headquarters - Chairman 2. Two Officers of the rank of Lieutenant Commander/ Lieutenant or Civilian Officers of equivalent rank or above of respective Command Headquarters or Naval Headquarters, one departmental and one unconnected with the department - Members.	Not applicable.

Note : The principal rules were published in Gazette of India, Part II, Section 4 *vide* S.R.O. 193, dated the 6th Sep 2001.

[F. No. CP(NG/2821/Cinema/RR/52/19/D/(A)]
BISWAJIT GUHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 मई, 2019

कानि.आ. 48.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, सेना सेवा कोर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सेना सेवा कोर (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. रक्षा मंत्रालय, सेना सेवा कोर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची में, फायरमैन पद के सामने कम संख्या 3, स्तंभ (7) में,—
(क) प्रविष्टि (vi) का लोप किया जाएगा।
(ख) प्रविष्टि (vii) को प्रविष्टि (vi) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा।

[सं. 78403/4/क्यू/एसटी-12(सिव)/110/र.(नि.)/2019]

एस. एस. एस. शर्मा, निदेशक (स्था. एवं सी. पी.)

टिप्पण : रक्षा मंत्रालय, सेना सेवा कोर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013, कानि.आ. 59 तारीख 17 सितम्बर, 2013 अधिसूचना संख्या द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 4 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या कानि.आ. 78 तारीख 11 जुलाई, 2018 के द्वारा तत्पश्चात् संशोधन किया गया।

New Delhi, the 14th May, 2019

S.R.O. 48.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Defence, Army Service Corps (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2013, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Army Service Corps (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2019.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Ministry of Defence, Army Service Corps (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2013, against the post of Fireman at serial number 3, in column (7),—
(a) entry (vi) shall be omitted;
(b) entry (vii) shall be re-numbered as (vi).

[No. 78403/4/Q/ST-12(Civ)/110/RR/2019/D(Apptt)]

S. S. S. SARMA, Director (Estt. & CP)

Note : The Ministry of Defence, Army Service Corps (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2013 were published in the Gazette of India, Part-II, section-4, vide notification number S.R.O. 59, dated the 17th September, 2013 and subsequently amended vide notification number S.R.O. 78, dated the 11th July, 2018.